

झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्  
राँची, झारखंड  
Jharkhand Council of Educational Research and Training  
Ranchi, Jharkhand  
वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा - 2023  
Annual Intermediate Exam - 2023  
मॉडल प्रश्न पत्र (MCQ)  
Model Question Paper (MCQ)

कक्षा- 12 Class-12	विषय - अर्थशास्त्र Sub. - Economics	समय- 1:30 घंटे Time - 1:30 Hours	पूर्णांक- 40 Full Marks- 40
-----------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------

सामान्य निर्देश :-

General Instructions: -

- कुल 40 प्रश्न हैं।  
Total number of questions is 40.
- सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं।  
All questions are mandatory.
- प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है।  
One mark is assigned to each question.
- प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए।  
There are four options for each of the questions. Choose the correct option.
- गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे।  
There is no negative marking for wrong answer.

1. अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है?

Which problem of an economy is related to the choice of technology of production?

(a) क्या उत्पादन करें?

What to produce?

(c) कैसे उत्पादन करें?

How to produce?

(b) कितनी मात्रा में उत्पादन करें?

In what quantity to produce?

(d) किसके लिए उत्पादन करें?

To whom to produce?

2. कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता का मान ..... होता है।  
Total utility is maximum when the value of marginal utility is.....
- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| (a) शून्य<br>Zero       | (b) ऋणात्मक<br>Negative |
| (c) धनात्मक<br>Positive | (d) न्यूनतम<br>Minimum  |
3. सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है-  
Generally, an Indifference curve is -
- |  |  |
|--|--|
| (a) वृत्ताकार<br>Circular shaped                   | (b) 'U' आकार का<br>'U' shaped                      |
| (c) मूल बिन्दु की ओर उत्तल<br>Convex to the origin | (d) मूल बिन्दु की ओर अवतल<br>Concave to the origin |
4. सामान्यतः एक माँग वक्र की ढाल होती है-  
Generally, the slope of a demand curve is -
- |   |   |
|---|---|
| (a) धनात्मक<br>Positive                                       | (b) ऋणात्मक<br>Negative                                       |
| (c) पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक<br>First positive, then negative | (d) पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक<br>First negative, then positive |
5. एक सरल रेखा माँग वक्र के मध्य बिन्दु पर माँग की कीमत लोच ..... होती है।  
The price elasticity of demand at midpoint of a straight-line demand curve is.....
- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| (a) शून्य<br>Zero               | (b) एक<br>One                 |
| (c) एक से अधिक<br>More than one | (d) एक से कम<br>Less than one |
6. निम्न में से किस वक्र का आकार 'उल्टा U आकार' का होता है?  
Which of the following curve is inverted 'U' shaped?
- |  |  |
|--|--|
| (a) औसत स्थिर लागत<br>Average fixed cost | (b) औसत परिवर्ती लागत<br>Average variable cost |
| (c) सीमांत लागत<br>Marginal cost         | (d) औसत उत्पाद<br>Average product              |

7. उत्पादन फलन  $Q = AL^\alpha K^\beta$  में पैमाने का प्रतिफल की माप है-

The measurement of returns to scale in production function  $Q = AL^\alpha K^\beta$  is-

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| (a) $\alpha + \beta$      | (b) $\alpha - \beta$ |
| (c) $\alpha \times \beta$ | (d) $\alpha/\beta$   |

8. जब सीमांत लागत, औसत लागत से कम होती है, तब औसत लागत-

When marginal cost is less than average cost, then the average cost-

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| (a) घटती है।<br>diminishes | (b) न्यूनतम होती है।<br>becomes minimum |
| (c) बढ़ती है।<br>increases | (d) अधिकतम होती है।<br>becomes maximum  |

9. उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है?

Which cost does not change with the change in output?

- |  |  |
|--|--|
| (a) औसत स्थिर लागत<br>Average fixed cost | (b) औसत परिवर्ती लागत<br>Average variable cost |
| (c) सीमांत लागत<br>Marginal cost         | (d) कुल स्थिर लागत<br>Total fixed cost         |

10. निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत-स्वीकारक होता है?

In which of the following market structures, a firm is price taker?

- |  |  |
|--|--|
| (a) एकाधिकार<br>Monopoly                     | (b) एकाधिकृत प्रतियोगिता<br>Monopolistic Competition |
| (c) पूर्ण प्रतियोगिता<br>Perfect Competition | (d) अल्पाधिकार<br>Oligopoly                          |


11. एक पूर्णप्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है?

Which of the following option is correct for equilibrium of a firm in perfect competition?

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| (a) $MR = MC$        | (b) $MR - MC = 0$               |
| (c) $MR \div MC = 1$ | (d) इनमें से सभी (All of these) |

12. निम्नलिखित रेखाचित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है?

Which value of elasticity of supply is measured by following diagram?



(a) शून्य

Zero

(c) एक से अधिक

More than one

(b) एक से कम

Less than one

(d) एक

One

13. इकमुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है?

What is the effect of lumpsum tax on supply of a goods?

(a) पूर्ति कम हो जाती है।

Supply diminishes

(c) पूर्ति अपरिवर्तित रहती है।

Supply remains unchanged

(b) पूर्ति में वृद्धि होती है।

Supply increases

(d) पूर्ति शून्य हो जाती है।

Supply becomes zero

14. अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु की माँग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा?

Other things remain unchanged, what is the effect of increase in demand of a goods on market equilibrium?

(a) संतुलन कीमत में कमी एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी।

Equilibrium price will decrease and equilibrium quantity will increase.

(b) संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी।

Equilibrium price will increase and equilibrium quantity will decrease.

(c) संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी।

Equilibrium price and equilibrium quantity will increase

(d) संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी।

Equilibrium price and equilibrium quantity will decrease.

15. आधिक्य माँग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है-

If there is excess of demand then the price tends to

(a) कमी होने की

Fall

(c) शून्य होने की

Be zero

(b) वृद्धि होने की

Increase

(d) अपरिवर्तित रहने की

Be unchanged

16. आधिक्य पूर्ति की स्थिति होती है जब-

There is excess of supply, when-

(a)  $D > S$

(b)  $D < S$

(c)  $D = S$

(d)  $D = S = 0$

\*जहाँ  $D$  = माँग(Demand) और  $S$  = पूर्ति(Supply)

17. अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा?

Other things remain constant, what is the effect of decrease in supply of a goods on market equilibrium?

(a) संतुलन कीमत में कमी एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी।

Equilibrium price will decrease and equilibrium quantity will increase.

(b) संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी।

Equilibrium price will increase and equilibrium quantity will decrease.

(c) संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी।

Equilibrium price and equilibrium quantity will increase.

(d) संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी।

Equilibrium price and equilibrium quantity will decrease.

18. एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की माँग की कीमत लोच कितनी होती है?

What is the price elasticity of demand for a goods at production level of maximum total revenue in Monopoly?

(a) 0

(b) 1

(c) 1 से कम

(d) 1 से अधिक

Less than 1

More than 1

19. द्वयाधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है?

How many sellers are there in duopoly?

- (a) 1
- (b) 4
- (c) 3
- (d) 2

20. निम्न में किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है?

In which of the following market differentiated goods are produced?

- (a) एकाधिकार  
Monopoly
- (b) एकाधिकृत प्रतियोगिता  
Monopolistic competition
- (c) पूर्ण प्रतियोगिता  
Perfect competition
- (d) इनमें से सभी  
All of these

21. 'द जेनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लॉइमेंट इन्टरेस्ट एण्ड मनी' नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?

Who is writer of the book 'The General Theory of Employment, Interest and Money'?

- (a) अल्फ्रेड मार्शल  
Alfred Marshal
- (b) एडम स्मिथ  
Adam Smith
- (c) जे. एम. केन्स  
J.M. Keynes
- (d) जे. एन. केन्स  
J. N. Keynes

22. GDP और NDP में क्या संबंध है?

What is the relationship between GDP and NDP?

- (a)  $GDP = NDP - \text{मूल्यहास}$   
 $GDP = NDP - \text{Depreciation}$
- (b)  $GDP = NDP \times \text{मूल्यहास}$   
 $GDP = NDP \times \text{Depreciation}$
- (c)  $GDP = NDP + \text{मूल्यहास}$   
 $GDP = NDP + \text{Depreciation}$
- (d)  $NDP = GDP + \text{मूल्यहास}$   
 $NDP = GDP + \text{Depreciation}$

23. निम्न में किस वस्तु के निर्माण में गेहूँ एक मध्यवर्ती वस्तु है?

Wheat is an intermediate goods in manufacturing of which of the following goods?

- (a) चपाती  
Chapati
- (b) बिस्कुट  
Biscuits
- (c) ब्रेड  
Breads
- (d) इनमें से सभी  
All of these

24. किसी वर्ष GDP की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा?

Which of the following item is not included in the calculation of GDP in a year?

(a) नई कार का मूल्य

Value of a new car

(c) शिक्षक का शिक्षण शुल्क

Tuition Fee of a teacher

(b) प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य

Selling price of a used car

(d) ब्रेड का मूल्य

Value of Breads

25. निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है?

GDP can be calculated by which of the following methods?

(a) मूल्य वृद्धि विधि

Method of value addition

(c) व्यय विधि

Expenditure Method

(b) आय विधि

Income method

(d) इनमें से सभी

All of these

26. सन् 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था?

In the demonetization done in 2016, Which denominations of Currencies was taken out of circulation?

(a) 50 रुपये एवं 100 रुपये

₹50 and ₹100

(c) 500 रुपये एवं 1000 रुपये

₹500 and ₹1000

(b) 100 रुपये एवं 500 रुपये

₹100 and ₹500

(d) 500 रुपये एवं 200 रुपये।

₹500 and ₹200

27. निम्न में कौन सा एक कार्य केन्द्रीय बैंक का नहीं है?

Which of the following is not the function of a central bank?

(a) मुद्रा निर्गमन

Note Issuing

(c) जनता से जमा स्वीकार करना

Accepting deposits with public

(b) साख नियंत्रण

Credit control

(d) सरकार का बैंक

Bank of governments.

28. भारत का एक केन्द्रीय बैंक है-

The central bank of India is-

(a) भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India

(c) भारतीय रिजर्व बैंक

Reserve Bank of India

(b) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Central Bank of India

(d) बैंक ऑफ इंडिया

Bank of India

29. निम्नलिखित में सबसे तरल मुद्रा कौन सी है?

Which of the following is the most liquid money?

(a)  $M_1$

(b)  $M_2$

(c)  $M_3$

(d)  $M_4$

30. उपभोग फलन  $C = A + bY$  में प्रेरित उपभोग है-

The induced consumption in the consumption function  $C = A + bY$  is -----

(a) A

(b) b

(c) C

(d) bY

31.  $MPC + MPS = \dots\dots\dots$

(a) 0


(b) 2

(c) 1

(d)  $\infty$

32. निम्न रेखाचित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा है-

What is the line of autonomous investment in the following diagram?



(a) AB

(b) OX

(c) CD

(d) EF

33. किसी अर्थव्यवस्था में यदि  $MPS = 0.4$  है तो गुणक का मान क्या होगा?

If the value of MPS in an economy is 0.4, then what will be the value of multiplier?

- |         |         |
|---------|---------|
| (a) 1   | (b) 0.4 |
| (c) 0.6 | (d) 2.5 |

34. निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है?

Which of the following is not an example of direct tax?

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| (a) उपहार कर<br>Gift tax                       | (b) संपत्ति कर<br>Wealth tax |
| (c) वस्तु एवं सेवा कर<br>Goods and Service tax | (d) आयकर<br>Income tax       |

35. निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है?

Which of the following is an example of public goods?

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| (a) कार<br>Car          | (b) सड़क<br>Road     |
| (c) चॉकलेट<br>Chocolate | (d) कपड़ा<br>Clothes |

36. भारत में GST कब लागू किया गया?

When was GST implemented in India?

- |          |          |
|----------|----------|
| (a) 1991 | (b) 2016 |
| (c) 2017 | (d) 1947 |

37. राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है?

What is the difference between Revenue expenditure and Revenue receipts called?

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| (a) राजकोषीय घाटा<br>Fiscal deficit | (b) प्राथमिक घाटा<br>Primary deficit |
| (c) व्यापार घाटा<br>Trade deficit   | (d) राजस्व घाटा<br>Revenue deficit   |

38. व्यापार संतुलन क्या है?

What is Balance of Trade?

- (a) आयात और निर्यात का अंतर (Difference between Imports and Exports)
- (b) निर्यात और आयात का अंतर (Difference between Exports and Imports)
- (c) आयात और निर्यात का योग (Sum of Imports and Exports)
- (d) निर्यात और आयात का गुणनफल (Product of Imports and Exports)

39. यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाईल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन-देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा?

If an Indian buys a Chinese mobile company, where will this transaction be entered in India's balance of payment?

- |   |  |
|---|--|
| (a) चालू खाते के डेबिट मद में<br>In debit of current account  | (b) चालू खाते के क्रेडिट मद में<br>In credit of current account  |
| (c) पूँजी खाते के डेबिट मद में<br>In debit of capital account | (d) पूँजी खाते के क्रेडिट मद में<br>In credit of capital account |

40. निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है?

Which of the following item is a component of current account of balance of payment?

- |  |  |
|--|--|
| (a) प्रत्यक्ष निवेश<br>Direct Investment | (b) विदेशी ऋण<br>Foreign debt              |
| (c) विदेशी सहायता<br>Foreign aid         | (d) वस्तुओं का निर्यात<br>Exports of goods |

झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् राँची, झारखण्ड  
वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा - 2023  
मॉडल प्रश्न पत्र (विषयनिष्ठ)

कक्षा - 12	विषय - अर्थशास्त्र	समय- 1:30 घंटे	पूर्णांक- 40
------------	--------------------	----------------	--------------

सामान्य निर्देश:-

- परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए।
- कुल प्रश्नों की संख्या 19 है।
- प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है।
- प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है।
- प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है।

**खंड-A अतिलघूत्तरीय प्रश्न**

Section-A Very Short answer type questions.

निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (2 अंक \* 5 = 10 अंक)

Answer any five from the following questions. (2 Marks \* 5 = 10 Marks)

1. व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए।

Define Micro economics.

2. बाजार से आप क्या समझते हैं?

What do you mean by Market?

3. एकाधिकार का अर्थ लिखिए।

Write the meaning of Monopoly.

4. एकाधिकार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच कैसा संबंध होता है?

What is the relationship between Price and Marginal cost in the Monopoly?

5. आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए।

What do you understand by Economic agents? Give examples.

6. सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं?

What do you mean by Government Budget?

7. आयात-प्रतिस्थापन से क्या तात्पर्य है?

What is meant by Import substitution?

## खंड-B लघूत्तरीय प्रश्न

Section-B Short answer type questions.

निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (3 अंक \* 5 = 15 अंक)

Answer any five from the following questions. (3 Marks \* 5 = 15 Marks)

8. किसी वस्तु की माँग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।

Explain the factors affecting demand for a goods.

9. अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए।

Differentiate between Short run Production Function and Long run Production Function.

10. बाजार की शक्तियों का वर्णन कीजिए।

Explain the Powers of Market.

11. राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए।

Explain Product Method of calculating National Income.

12. मुद्रा के किन्हीं तीन मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए।

Mention any three main functions of the Money.

13. समग्र मांग के घटकों को लिखिए।

Write the components of Aggregate Demand.

14. यदि MPC का मान 0.75 है, तो गुणक का मान ज्ञात कीजिए।

If the value of MPC is 0.75 then calculate the value of Multiplier?

## खंड-C दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

Section-C Long answer type questions

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (5 अंक \* 3 = 15 अंक)

Answer any three from the following questions. (5 Marks \* 3 = 15 Marks)

15. निम्नलिखित तालिका से माँग की कीमत लोच की गणना कीजिए।

Calculate the price elasticity of demand from the following table.

वस्तु की कीमत (Price of goods)	वस्तु की माँग मात्रा (Quantity demanded)
5	20
4	30

(उत्तर- -2.5)

16.सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में संबंध की व्याख्या किजिए।

Explain the relationship between Marginal Product and Average Product.

17.पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का संतुलन की व्याख्या किजिए।

Explain the equilibrium of a Firm in Perfect competition.

18.निम्नलिखित आँकड़ों से शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए।

Calculate Net Value added from following data

(लाख रुपये में) (Lakh Rupees)

a) विक्रय (Sale)	200
b) कच्चे माल का क्रय (Purchasing of Raw material)	50
c) अंतिम स्टॉक (Final stock)	15
d) प्रारम्भिक स्टॉक (Initial Stock)	10
e) अचल पूँजी का उपभोग (Consumption of Fixed capital))	10

(उत्तर - 145 लाख रुपये)

19.मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित मुद्रा की पूर्ति की वैकल्पिक मापों को परिभाषित कीजिए। (1+4)

What is meant by supply of money? Define the alternative measures of supply of money published by Reserve Bank of India.